



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69]

नई दिल्ली, बुध्द्वर्तिवार, फरवरी 22, 1973/फाल्गुन 3, 1894

No. 69]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 1973/PHALGUNA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February 1973

S.O. 105(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in partial modification of the notification in the Government of India in the late Ministry of Commerce, No. S.O. 1844, dated the 18th June, 1966, in so far as it relates to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (e), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall be exercisable also by the Government of the State of Madhya Pradesh in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 1973.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Grass.
- (ii) Kadbi (Juar Stems).
- (iii) Wheat Bhusa.
- (iv) Paddy Stems.

[No. 24-8/72-L.D.III.]

V. K. MALIK, Director (AH).

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1973

का० आ० 105(अ):—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1844, तारीख 18 जून, 1966, जहां तक वह उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे से संबंधित है, के आंशिक उपान्तरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा उक्त धारा की उप धारा (2) के खंड (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के अधीन आदेश देने के लिए, उसे प्रदत्त शक्ति में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रयोक्तव्य होंगी।

यह आदेश, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 मार्च, 1973 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

- (i) घास
- (ii) कड़वी (ज्वार तने)
- (iii) गेहूं का भूसा
- (iv) धान का पुआल

[सं० 24-8/72-एल० डी० 3]

बी० के० मलिक, निदेशक (ए एच)।